दैनिक आज का आतंक

हिन्दी दैनिक R.N.I.UPHIN/2009/29998 प्रचार–प्रसार का सशक्त माध्यम

एक समाचार पत्र के रूप में ''डंकें की चोट पर 'सच लिखना' यह डराने के लिए नहीं है, ''आज का आतंक'' सच ख़बरें प्रस्तुत करने का संकल्प है।

# आज का आतंक

वर्षः 17 अंकः 66 हिन्दी दैनिक, बस्ती गुरूवार 25 दिसम्बर 2025 पृष्ठः 4 मूल्य :2 रूपया


# चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देना हमारे लिए पाप है–सीएम योगी

आज का आतंक संवाददाता

लखनऊ । यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जनप्रतिनिधियों ने अलग–अलग मुद्दे सदन में उठाए जिसका सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय व नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर अपना पक्ष रखा।मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टिकरण की नीति के कारण ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश में एक दलित हिंदू को पीटकर मार दिया गया लेकिन जो लोग गाजा पट्टी पर आंसू बहाते थे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला क्योंकि उन लोगों के लिए दलित, किसान और महिलाएं सब एक वोट बैंक हैं। तुष्टिकरण की नीति के कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। अगर विभाजन न होता तो हिंदुओं पर अत्याचार न होता। जब हम लोग बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों और रोहिंग्याओं का निकालेंगे तो यही लोग आंसू बहाएंगे क्योंकि इनमें से कई तो इन लोगों के वोटबैंक होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि हमने योजनाओं में जो लूट थी उसे रोका। सपा के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। बड़े–बड़े दावे करते हैं। जेपीएनआईसी पौने दो सौ करोड़ का प्रोजेक्ट था 860 करोड़ खर्च हो जाने के बाद भी अधूरा है। गोमती रिवर फ्रंट 167 करोड़ का प्रोजेक्ट था 1400 करोड़ खर्च हो गए तब भी अधूरा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सिविल वर्क के लिए 15 हजार 200 करोड़ रुपये तय किए गए थे हमने वहीं एक्सप्रेस वे 11 हजार 400 करोड़ रुपये में पूरा करके दिखा दिया। यही सपा के समय इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई है।मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने कानून व्यवस्था में सुधार किया है। यही कारण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ

है। आज निवेशक प्रदेश में आने के लिए तैयार हैं। प्रदेश में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। हमें खुशी है कि हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की सूची से बाहर निकाला है।

आज प्रदेश में व्यापारियों से गुंडा टैक्स नहीं लिया जाता है। आज अगर कोई गुंडा किसी बेटी को छेड़ता है तो वो जानता है कि जल्द ही यमराज का बुलावा आ जाएगा।

हमारी सरकार में किए गए आर्थिक सुधारों के कारण ही आज यूपी देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने भर्तियों को पारदर्शी बनाया है़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जितना सपा ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हमने नौ लाख सरकारी नौकरियां दी हैं लेकिन कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

सपा की सरकार में यूपी के लोगों के सामने पहचान का संकट था। लोगों में अपने जीवन के लिए भय था अब प्रदेश की पहचान बदली है। आज देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे और एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हमने भर्तियों को पारदर्शी बनाया है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने भर्ती बोर्ड में रिटायर्ड डीजीपी को बैठाया है। जिससे कि नकल माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। सज्जन को सुरक्षा और दुर्जन को ठिकाने लगाने के लिए ही तो हम बैठे हैं। कोई भजन करने के लिए तो बैठे नहीं हैं। भजन करने के लिए तो मठ ही पर्याप्त है। उसी में कर लेते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्... इसीलिए तो हम आए हैं। यही हमारी शपथ है।

चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देना हमारे लिए पाप है

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम हर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। किसी का नाम और चेहरा देखकर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं। ये हमारे लिए पाप है। विकास योजनाओं का लाभ हर किसी को मिलेगा।प्रदेश की हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए

यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के दिए गए सुझाव के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने तंज भी कसा। नेता सदन सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो भी सुझाव हमारी सरकार को दिए हैं अगर वो सत्ता में रहने पर सपा नेताओं को देते तो समाजवादी पार्टी तितर–बितर न होती।

उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि नेता प्रतिपक्ष ने स्वीकार किया कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज प्रदेश की पहचान बदली है। अब प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। सपा की ही सरकार थी लेकिन पूजा पाल को सपा की सरकार न्याय नहीं दिला सकी क्योंकि हिम्मत नहीं थी।

हमारी सरकार ने तय किया कि बेटी चाहे इस पक्ष की हो या विपक्ष की उसे न्याय हम देंगे। सरकार की प्राथमिकता में है कि प्रदेश की हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं भी किसी को जबरन कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी ने कब्जा किया है तो उसे मैं छोडूंगा नहीं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सरकार को समभाव से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं कि बिना भेदभाव के शुद्ध अंतरूकरण से बिना भय और पक्षपात के काम करूंगा और बुलडोजर से घर गिरा जाता है। ये कहां तक उचित है साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जो शपथ लेते हैं उसका कितना पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना जरूरी है।ष्नमामि गंगेष को लेकर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नमामि गंगे के लिए लगातार बजट दिया जा रहा है लेकिन अब तक पता नहीं चलता है कि धन कहां खर्च हो रहा है। जब भी सवाल पूछो तो उनका कहना होता है कार्य चल रहा है।

बड़े अपराधियों के साथ छोटों का भी करें इलाज

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में बड़े अपराधियों को तो नियंत्रित किया जा रहा है पर छोटे अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं नियंत्रित किया जा रहा है। ये लोग सत्ता से जुड़े लोगों से मिले होते हैं इसलिए इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। इससे गरीब लोग परेशान हैं।

इसी तरह प्रदेश में थाना और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। इससे गरीब लोग परेशान हैं। ये भ्रष्टाचार के केंद्र हैं। ये एक–एक मुकदमा कई वर्ष तक चलाते रहते हैं। उपभोक्ता फोरम में जज की नियुक्ति करें, लोकायुक्त की नियुक्ति भी जरूरी

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है। उपभोक्ता फोरम में जज की नियुक्ति नहीं हुई है जिससे कि लोगों को मुश्किल होती है। इसी तरह लोकायुक्त की नियुक्ति भी की जानी चाहिए।नेता प्रतिपक्ष बोले– हर बार अनुपूरक बजट लाना एक गलत परंपरा

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि जब मूल बजट पेश किया जाता है तो पूरा अनुमान लगा लिया जाता है कि कितना धन खर्च होगा और कितना राजस्व प्राप्तियां होंगी। पर अब देखा जा रहा है कि बार–बार अनुपूरक बजट लाया जा रहा है जो कि सही नहीं है। ये गलत परंपरा है। उन्होंने कहा कि 2025–26 में पेश किए गए मूल बजट का एक बड़ा हिस्सा पूरा खर्च ही नहीं किया गया है। ऐसे में बार–बार अनुपूरक बजट लाना एक गलत परंपरा है।अनुपूरक बजट पर बोले, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर

यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह अनुपूरक बजट जनकल्याणकारी, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की योजना के साथ लाया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है झूठ बोलना... हम सच बोलते थे। कहा कि हम अनुपूरक बजट का समर्थन करते हैं।

# 9.20 लाख रुपए न देने के लिए व्यापारी की हत्या,साजिश का पुलिस ने किया खुलासा, दो गिरफ्तार

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती । पुलिस ने एक गल्ला व्यापारी की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बकाया 9.20 लाख रुपए न चुकाने के लिए व्यापारी की हत्या की साजिश रची थी और इसे सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया था। वाल्टरगंज पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि 10 दिसंबर 2025 को गल्ला व्यापारी नीरज सिंह की हत्या के संबंध में थाना वाल्टरगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई।

जांच के क्रम में, वांछित अभियुक्त लालजी चौधरी को 24 दिसंबर की सुबह मानिक चंद से आगे पेट्रोल पंप के पास पुलिया के निकट से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसके साथी संजय सिंह की भूमिका सामने आने पर उसे भी कुछ ही देर बाद पकड़ लिया गया।

अभियुक्त लालजी ने पूछताछ में खुलासा किया कि मृतक नीरज सिंह उसका मित्र था और उसे धान सप्लाई करता था। इस वर्ष करीब 18.20 लाख रुपए का लेनदेन हुआ था, जिसमें से 9 लाख रुपए लौटाए जा चुके थे, जबकि 9.20 लाख रुपए बकाया थे। बार–बार तगादे से परेशान होकर उसने हत्या की साजिश रची।

योजना के तहत, नीरज को रुपए देने के बहाने कार में बैठाया गया। उसे शराब पिलाकर बेहोश किया गया और फिर मारपीट कर अचेत कर दिया गया। बाद में घटना को दुर्घटना दिखाने के लिए सड़क किनारे उसकी बाइक गिराई गई और कार से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी डिजायर कार और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

# लाइसेंस देने वाले अफसरों पर कार्रवाई शून्य,एसआईटी के लिए 'गणपति फार्मा' बना सिरदर्द

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती । लाखों रुपये के कोडीन युक्त सिरप की अवैध आपूर्ति से जुड़े गणपति फार्मा मामले की जांच जैसे–जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे–वैसे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संदिग्ध परिस्थितियों में जिस फार्मा फर्म को ड्रग लाइसेंस जारी किया गया, उसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह स्थिति स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के लिए भी गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

जांच में सामने आया है कि गणपति फार्मा जिस व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है, वह न तो लाइसेंस में दर्ज पते पर रहता है और न ही उस पते पर स्थानीय लोग उसे पहचानते हैं। इस गंभीर अनियमितता के बावजूद, संबंधित ड्रग लाइसेंसिंग अधिकारियों की भूमिका पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

मामले की जांच हो रही है

एसआईटी जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि बस्ती की चार प्रमुख फर्मों ने गणपति फार्मा को कुल 1.72 लाख शीशी कोडीन युक्त सिरप की आपूर्ति की। इनमें हर्ष मेडिसिन (जिला अस्पताल क्षेत्र), आईडियल एजेंसी (गांधीनगर), संस फार्मा (जिला अस्पताल क्षेत्र), एस फार्मा (खीरीघाट) शामिल हैं।

इन फर्मों के नाम और पते सही पाए गए हैं, लेकिन जांच में यह तथ्य सामने आया है कि रांची से भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप मंगाकर गणपति फार्मा तक पहुंचाने में इन्हीं फर्मों की संलिप्तता रही है।

पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि लाइसेंस प्रक्रिया में हुई कथित लापरवाही या मिलीभगत को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से अब तक न तो पूछताछ की गई है और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इससे जांच की निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि गणपति फार्मा के संचालक की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीम लगातार सक्रिय है और जल्द ही मामले में अहम कार्रवाई की जाएगी।

# जिहादी आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन,बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों का विरोध, पुतला दहन

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती । हर्रैया तहसील परिसर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के बैनर तले जिहादी आतंकवाद तथा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में मार्च निकाला, नारेबाजी की और प्रतीकात्मक रूप से जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन किया।

कार्यक्रम के मद्देनजर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में रखा गया था।

प्रदर्शन का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय पालिका मातृशक्ति कविता त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिला मंत्री प्रवीण सिंह, बजरंग दल जिला संयोजक अजय कन्नौजिया, दुर्गा वाहिनी की संयोजिका सुषमा तिवारी, सह संयोजक अर्जुन शर्मा और जिला सुरक्षा प्रमुख अनिल उपाध्याय ने किया।इस अवसर पर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमानाथ तिवारी, अधिवक्ता यशवंत सिंह, बलराम तिवारी और मनोज सिंह सहित कई अधिवक्ताओं ने भी सहभागिता की।ब्लॉक प्रमुख हर्रैया के पुत्र अंकुर सिंह, बलवंत सिंह, विमलेंद्र सिंह, शक्तिदीप पाठक, पूर्व प्रचारक अजीत सिंह, राम भगत सिंह, भीम सिंह, छोटे गुप्ता, धर्मेंद्र मोदनवाल, जय केसरवानी, संतोष कसौधन, कुंदन गुप्ता, राजन शर्मा, दिनेश, मुन्ना, अजय शर्मा, शिवम शर्मा और विकास साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद के किसी भी रूप का विरोध समाज के लिए आवश्यक है और पीड़ित मानवता के साथ खड़ा रहना सभी का दायित्व है। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

# पुरानी रंजिश में मारपीट, सात लोगों पर मामला दर्ज

आज का आतंक संवाददाता

रुधौली बस्ती । पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट की घटना में मंगलवार को एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सात लोगों को नामजद किया गया है।

पिपरपाती खुर्द निवासी तजीबुन्निशा ने थाने में तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षियों ने उन्हें और उनके परिजनों को पुरानी रंजिश के चलते अपशब्द कहे।

जब उन्होंने अपशब्द कहने से मना किया, तो आरोपियों ने मारपीट की और जानमाल की धमकी दी। इस घटना में तजीबुन्निशा और उनकी बेटी को गंभीर चोटें आई हैं।

पुलिस ने आरोपी फरीदा, साजिया, रिज्जू, शकील, शमीम, शहाबुद्दीन और शरालुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

# प्रापर्टी विवाद पर मारपीट,दो नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज,

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती । मुंडेरवा थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खड़ौहा गांव निवासी राजेश कुमार उपाध्याय ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि विपक्षी पक्ष के लोग कई महीनों से उनकी निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे का प्रयास कर रहे थे।

पीड़ित के अनुसार, यह घटना 21 दिसंबर की शाम करीब सात बजे हुई। विपक्षी जबरन उनकी जमीन पर लगी फेंसिंग के अंदर घुस आए और गाली–गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर राजेश कुमार उपाध्याय और उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई।

राजेश उपाध्याय ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने न केवल शारीरिक हमला किया, बल्कि फेंसिंग और अन्य सामान में भी तोड़फोड़ की, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ।

थानाध्यक्ष मुंडेरवा प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर इसी गांव के विद्यासागर उपाध्याय और सत्यम उपाध्याय के खिलाफ मारपीट, गाली–गलौज और तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

# एक व्यक्ति का दिनदहाड़े अपहरण मुकदमा दर्ज

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती । जिले के परसरामपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का दिनदहाड़े अपहरण कर एटीएम से 50 हजार रुपये लूटने का मामला सामने आया है। चार अज्ञात बदमाशों ने पीड़ित को स्कॉर्पियो में बैठाकर अयोध्या तक ले गए और फिरौती की मांग की।

यह घटना 22 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 12.30 बजे परसरामपुर कस्बे में दुर्गा माता मंदिर के पास हुई। कुरुक्षेत्र (हरियाणा) के तंगोर गांव निवासी 46 वर्षीय वीरेंद्र सिंह को सफेद रंग की स्कॉर्पियो (नंबर न्द्व33 ठ७ 0033) में सवार चार अज्ञात व्यक्तियों ने जबरन अगवा कर लिया।

बदमाशों ने रास्ते में वीरेंद्र सिंह को धमकाते हुए एक लाख रुपये की फिरौती मांगी। पीड़ित के अनुसार, आरोपी उन्हें स्कॉर्पियो से अयोध्या ले गए, जहां देवकाली क्षेत्र के पास उनके दो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर 50 हजार रुपये नकद निकाल लिए।

वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वीरेंद्र सिंह को छोड़कर फरार

# बिल वसूली अभियान के दौरान विद्युत विभाग की टीम पर हमला, लाइनमैन गंभीर घायल

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती नगर बाजार । कटरूआ दलथम्मन गांव में विद्युत विभाग की टीम पर हमला किया गया है। यह घटना 21 दिसंबर 2025 को शाम करीब 4 बजे हुई, जब टीम विद्युत बिल राहत योजना–2025 के तहत अभियान चला रही थी। हमले में एक लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गया।

अवर अभियंता शाहनवाज आलम के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम गांव में बकाया बिल जमा करने और जनसंपर्क अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम ने गांव के बाहर अवैध केबल से बिजली चोरी की आशंका पर जांच शुरू की और अवैध कनेक्शन हटाने का प्रयास किया।

आरोप है कि तभी गांव के रोहन सिंह, रमेश सिंह उर्फ बब्बल सिंह और 10–15 अज्ञात लोगों ने टीम के साथ अभद्रता की। उन्होंने गाली–गलौज, धक्का–मुक्की की और जान से मारने की धमकी भी दी।

हमलावरों ने विभागीय कार्य में बाधा डाली और लाइनमैन चंद्रकेश को बुरी तरह पीटा। आरोप है कि चंद्रकेश, जो अनुसूचित जाति से हैं, को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के समय अधिशासी अभियंता अरुण सिंह, कार्यकारी सहायक रुद्र प्रताप पाण्डेय सहित अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। पूरी घटना की वीडियोग्राफी भी की गई है।

इस घटना के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों में रोष है, जिससे उनके नियमित कार्य पर असर पड़ रहा है। विभाग ने थाना नगर में एक प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

थाना प्रभारी विश्व मोहन राय ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

# बस–बाइक टक्कर, एक महिला की मौत,दूसरी गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल भेजा

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती । जनपद के हर्रैया थाना क्षेत्र अंतर्गत तेनुआ के पास गोरखपुर–अयोध्या नेशनल हाईवे पर बुधवार दोपहर करीब दो बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस (संख्या U 78 LT 1071) ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के समय बाइक (संख्या UP 51 BJ 3553) पर एक युवक और दो महिलाएं सवार थीं। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया है।स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका और घायल महिला महुआडाबर गांव की निवासी थीं। वे घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक निजी अस्पताल में अपने किसी परिचित से मिलने जा रही थीं।हादसा हर्रैया थाना से लगभग 200 मीटर पहले, गोरखपुर से अयोध्या की ओर जाने वाली लेन पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को

कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने तत्परता से नियंत्रित कर सामान्य करा दिया।

# शीतलहर के चलते 5वीं तक के स्कूलों में छुट्टी

आज का आतंक संवाददाता

संतकबीर नगर। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए डीएम आलोक कुमार ने एक बार फिर प्राथमिक विद्यालयों की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। यह अवकाश कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालयों पर लागू होगा।जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेंगे। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस और 27 दिसंबर को पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जबकि 28 दिसंबर को रविवार होने के कारण स्कूल पहले से बंद रहेंगे।इस प्रकार लगातार अवकाश के चलते अब कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालय 29 दिसंबर को पुनः खुलेंगे। हालांकि, अवकाश अवधि के दौरान शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और आवश्यक प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करेंगे।जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। ठंड के प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

# जगतगुरू स्वामी राम भद्राचार्य 20 फरवरी को करेंगे महर्षि वशिष्ठ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा

**15 फरवरी से आरम्भ हो जायेंगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम**

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती। जगतगुरू स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज 20 फरवरी को महर्षि वशिष्ठ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बढ़नी मिश्र के वशिष्ठ आश्रम परिसर में आयोजित इस समारोह में देश के अनेक दिग्गज भी आयेंगे। इस अवसर पर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा 18 फरवरी से 26 फरवरी तक वशिष्ठ रामायण कथा होगी। जगत्गुरू स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि विश्व में पहली बार वशिष्ठ रामायण पर कथा का आयोजन प्रस्तावित है।

मध्यप्रदेश के चित्रकूट धाम स्थित तुलसी पीठ पर मंगलवार को जगतगुरु जी से मिलकर उन्हें आमंत्रित करने के बाद बस्ती लौटे स्वामी रामभद्राचार्य जी के दीक्षित शिष्य एवं कार्यकम संयोजक राना दिनेश प्रताप सिंह ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि वृन्दावन और अयोध्या धाम के विद्वानों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 15 फरवरी से ही शुरू हो जाएगा। समारोह के मुख्य यजमान और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति चन्द्र भूषण मिश्र, रत्नेश मिश्र, शतीश कुमार मिश्र, आशुतोष मिश्र, राजेश त्रिपाठी, अवधेश मिश्र, विनोद उपाध्याय,आदेश मिश्र, विजय मिश्र, मयंक श्रीवास्तव,अविनाश मिश्र, गुरुदत्त मिश्र, शिव बख्श मिश्र, शिव प्रकाश मिश्र, सालिगराम त्रिपाठी, राकेश मिश्र, सुरेश चंद्र मिश्र,विकास मिश्र, देवेश धर द्विवेदी, अश्वनी राज, मास्टर शिव, अविनाश श्रीवास्तव सहित सैकड़ों धर्मावलंबी इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं।

# शिक्षकों के जनपदीय अधिवेशन के लिये पदाधिकारियों ने झोंकी ताकत, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा भव्य स्वागत

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती । उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई का अधिवेशन 26 दिसम्बर को बीएसए कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया है। अधिवेशन के लिये तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को बीआरसी बहादुरपुर, कुदरहा और बस्ती सदर में जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला, जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने साऊंघाट और जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह यादव ने बनकटी के बीआरसी केन्द्र और क्षेत्रीय इकाईयो के अध्यक्ष, मंत्रियों ने अपने–अपने बीआरसी केन्द्रों पर बैठक कर शिक्षकों से अधिवेशन में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेने का आवाहन किया।

संघ जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला ने कहा कि अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय, संघ के संरक्षक सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, एम. एल.सी. देवेन्द्र प्रताप सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ल, विधायक अंकुर तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर श्रीवास्तव के साथ ही अनेक जन प्रतिनिधि अधिवेशन में हिस्सा लेंगे।

बताया कि अधिवेशन की तैयारियां पूरी की जा चुकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय का घघौआ पुल से कार्यक्रम स्थल तक अनेक स्थानों पर शिक्षकों द्वारा फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया जायेगा। घघौआ विक्रमजोत, हर्रैया, कप्तानगंज, फुटहिया पर शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जायेगा। इसके लिये पदाधिकारियों को दायित्व सौंप दिया गया है। अधिवेशन में ही पदाधिकारियों का निर्वाचन होगा। सघन बैठकों का सिलसिला जारी है।

बुधवार को आयोजित विभिन्न बैठकों में रीता शुक्ला, संदीप यादव, सूर्य प्रकाश शुक्ल, जय प्रकाश शुक्ल, आनन्द दूबे, चन्द्रभान चौरसिया, ओम प्रकाश पाण्डेय, चन्द्रिका प्रसाद सिंह, गुड्डू चौधरी, ओंकार चौधरी, भैयाराम राव, शैल शुक्ल, विजय प्रकाश वर्मा, आशुतोष शुक्ल, शिवम शुक्ल, मो. याकूब, अखिलेश चौधरी, शिवाकान्त पाण्डेय, सोनिल श्रीवास्तव, अखिलेश मिश्र, वृजेश त्रिपाठी, पूजा पाण्डेय, अनीता सैनी, उपमा वर्मा, शमा खातून, अनीता, फरीदा खातून, तरन्नुम नाज, सौम्या गुप्ता, रंजना, नन्दकिशोर चौधरी, अमनदीप, प्रसून पाठक, नितीश उपाध्याय, ध्रुव चौधरी, विकास पटेल, उत्कर्ष मिश्र, जया मिश्र, नम्रता राय के साथ ही अनेक शिक्षक शामिल रहे।

# साइबर क्राइम एक चुनौती विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता में 369 बच्चों ने लिया हिस्सा

**साइबर क्राइम देश के लिए गंभीर खतरा– तहसीलदार सिंह**

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती। हर्रैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गजाधर सिंह अंगद सिंह एकेडमी में बुधवार को पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी तहसीलदार सिंह द्वारा साइबर क्राइम एक चुनौती विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परीक्षा में 137 छात्राएं और 232 छात्र कुल 369 लोग सम्मिलित हुए। थाना प्रभारी ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व ही विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों को इस प्रतियोगिता और विषय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई थी। थाने की साइबर टीम द्वारा विद्यालय में साइबर अपराध के संबंध में विस्तृत रूप से बच्चों को जागरूक किया गया था। उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी के साथ बच्चों ने पूरे मनोयोग से इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के बाद इस प्रतियोगिता के श्रेष्ठ पांच प्रतिभागियों को आगामी 30 दिसम्बर को पुरस्कृत किया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि इस निबंध प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य साइबर क्राइम के प्रति बच्चों को जागरूक करना है । कहा कि साइबर क्राइम देश के लिए एक गंभीर खतरा है क्योंकि यह न केवल अर्थव्यवस्था, वित्तीय संस्थानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुँचाता है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों के डेटा और भरोसे को भी कमजोर करता है, जिससे वित्तीय हानि, डेटा चोरी और सामाजिक अव्यवस्था फैल सकती है, जिसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष चन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस की यह पहल बेहद सराहनीय है। क्योंकि आजकल के डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और इंटरनेट के बहुत ज्यादा करीब हैं। छोटी उम्र में ही उनके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट का एक्सेस आ जाता है। लेकिन बच्चे नासमझ और मासूम होते हैं जिसकी वजह से वो साइबर अपराध का आसान शिकार भी बन रहे हैं।

# रंगदारी वसूलने वालों ने रोक दिया निर्माण कार्य, पीड़ित ने थानाध्यक्ष से किया न्याय दिलाने की मांग

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती । कोतवाली थाना क्षेत्र के खीरीघाट निवासी अरूण कुमार पुत्र बसन्त ने पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष को पत्र देकर अपनी बैनामाशुदा जमीन की रक्षा और रंगदारी वसूलने वालों से बचाव की गुहार लगाया है।

पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष को दिये पत्र में अरूण कुमार ने कहा है कि उसने नरहरिया में गाटा संख्या 146 निकट सिंघल गैस एजेन्सी पाण्डेंय बाजार बांसी रोड स्थित भूमि का बैनामा मेहीलाल पुत्र छेदीलाल आदि से लिया है। उसके जमीन लेने से कुछ लोग नाराज हैं और पैसा वसूलने के उद्देश्य से आये दिन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली और जान से मारने की धमकी देते हैं। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पाण्डेय बाजार निवासी पन्नेलाल, रवि, अजय कुमार, गोलू आदि जमीन लेने वालों को परेशान कर उनसे धन उगाही करते हैं। कई बार वह भय बश इन लोगों को रंगदारी के नाम पर पैसा भी दे चुका है किन्तु इनकी लालच बढती जा रही है और जमीन पर निर्माण जबरिया रोकवा दिया है।

उसने पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष को पत्र देकर मांग किया है कि दोषियो के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाय और उसे अपनी बैनामाशुदा जमीन पर निर्माण कार्य करने दिया जाय।

## शहर में नगरपालिका लगा रही है 54 डिजाइनर स्ट्रीट लाइटः अध्यक्ष नेहा वर्मा ने किया निरीक्षण

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती। नगर पालिका द्वारा कम्पनी बाग से बड़े वन तक 54 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट पोल लगवाये जा रहे हैं। नगर वासियों को अब स्ट्रीट लाइट पोल के साथ रोशनी तो मिलेगी ही, मार्ग का आकर्षण भी बढ जायेगा। बुधवार को नगरपालिका परिषद अध्यक्ष नेहा वर्मा ने भाजपा नेता अंकुर वर्मा और अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता के साथ बड़े वन के निकट डिजाइनर स्ट्रीट लाइट पोल का निरीक्षण किया। डिजाइनर पोल लगाने का कार्य 30 दिसम्बर तक पूरा हो जायेगा।

निरीक्षण के दौरान नपा अध्यक्ष नेहा वर्मा ने निर्देश दिया कि सभी डिजाइनर स्ट्रीट लाइट पोल पूरी मजबूती से लगवाया जाय। कहा कि चरणबद्ध ढंग से पालिका क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर सेवा देने का निरन्तर प्रयास जारी है। इस दौरान कर निर्धारण अधिकारी उदयभान और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

# शत–प्रतिशत विद्यालयों को निपुण बनाने की ठोस कार्य योजना बनाएं – संजय शुक्ल

समग्र शिक्षा के कार्यक्रमों की डायट में हुई मासिक समीक्षा बैठक

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में बुधवार को समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में दिसम्बर माह में किए गए कार्यों की समीक्षा हुई और बीईओ, एसआरजी, एआरपी के जनवरी माह के लक्ष्य को प्राचार्य ने निर्धारित किया। बैठक को संबोधित करते हुए डायट प्राचार्य ने कहा 27 जनवरी से परिषदीय स्कूलों के बच्चों का निपुण असेसमेंट होना है। शत – प्रतिशत बच्चे निपुण हो इसके लिए आप सभी ठोस कार्य योजना बनाएं। सभी बच्चे निपुण हों यह तभी संभव है जब विद्यालय से लेकर संकुल स्तर और ब्लॉक स्तर पर सभी शिक्षक, शिक्षक संकुल, एआरपी और बीईओ सभी लोग मिलकर एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ काम करें। बैठक के नोडल प्रवक्ता इमरान और निपुण भारत मिशन के जिला समन्वयक आलोक त्रिपाठी द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी साझा की गई। उन्होंने दिसम्बर माह में डायट मेंटर, एसआरजी और एआरपी द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सपोर्टिव सुपरविजन, स्पॉट असेसमेंट, शिक्षकों के साथ संवाद, समय सारिणी तथा पाठ्यक्रम, संदर्शिका, शिक्षक डायरी, मासिक शिक्षक संकुल बैठक, आगामी माह की अकादमिक योजना आदि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई ।एसआरजी अंगद पाण्डेय ने एआरपी के कार्यों में आ रही कठिनाइयों का निराकरण किया साथ ही पठन–पाठन के माहौल को बेहतर बनाने और विद्यालयों को निपुण बनाने के तरीके साझा किए। विभिन्न ब्लॉकों के बीईओ और एआरपी ने जनवरी माह की कार्ययोजना के साथ ही विद्यालयों में पठन–पाठन के बेहतर माहौल बनाने के तरीके साझा किए।

बैठक में बीईओ विजय आनंद, धीरेन्द्र त्रिपाठी, ममता सिंह, दिव्यांश त्रिपाठी, अनिका सिद्दीकी सहित जनपद के एआरपी उपस्थित रहे।

## अटल जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर बस्ती में दीपोत्सव, स्वच्छता अभियान व श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या के अवसर पर जनपद बस्ती में अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने की, जबकि पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी दोनों स्थानों पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे।

अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत भाजपा कार्यालय पर दीप जलाकर "एक शताब्दी अटल भारत की" स्मरणोत्सव के अंतर्गत दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अटल जी के राष्ट्रसेवा से परिपूर्ण जीवन को स्मरण किया गया।

इस अवसर पर पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्रसेवा में समर्पित कर भारत को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया। वे भारतीय राजनीति के युगपुरुष थे, जिनका व्यक्तित्व, विचार और कृतित्व सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। अटल जी की शताब्दी जन्म जयंती पर उन्हें कोटि–कोटि नमन है।

जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी का सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण, जनसेवा और सुशासन के लिए समर्पित रहा। पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और पवित्रता के साथ उन्होंने जिस राजनीति की परंपरा स्थापित की, वह अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी के लिए मार्गदर्शक है।

कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील सिंह, प्रमोद पाण्डेय, चन्द्र शेखर 'मुन्ना', अनिल दुबे, भानु प्रकाश मिश्र, अरविन्द श्रीवास्तव, गिल्लम चौधरी, सतेन्द्र सिंह, अंकुर वर्मा, परमेश्वर शुक्ल 'पप्पू', प्रत्युष सिंह, विनय यादव, वैभव पाण्डेय, जगदीश शुक्ल, अमृत कुमार वर्मा, ममता सिंह, शालिनी मिश्र, शिवानी सिंह, विनोद चौधरी, मनोज ठाकुर, गजेन्द्र सिंह, सुनील सिंह, बाल कृष्ण त्रिपाठी, काजू श्रीवास्तव, दिलीप पाण्डेय, रमेश चक्रवर्ती, प्रदीप निषाद, वरुण सिंह, केडी पाण्डेय, रवि तिवारी, गौरव अग्रवाल, सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

# श्रीकृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुन भावविभोर हुए दर्शक

नंदनी मौर्या जिला संवाददाता

डुमरियागंज ।क्षेत्र के चौखड़ा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में कथा वाचक प्रेम शरण शास्त्री ने श्रीकृष्ण और रुकमणी के विवाह की अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया।

श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बीच बीच में सुंदर–सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई ।कथा में भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया गया ।कथा वाचक ने बताया कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए ।मथुरा गमन प्रसंग में अक्रूर जी भगवान को लेने आए,जब भगवान श्रीकृष्ण मथुरा जाने लगे समस्त ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के रथ के आगे खड़ी हो गई,और कहने लगी हे कन्हैया जब आपको हमें छोड़कर ही जाना था तो हम से प्रेम क्यों किया ।गोपी उद्धव संवाद,श्री कृष्ण एवं रुकमणी विवाह उत्सव पर मनोहर झांकी प्रस्तुत की गई ।भगवान श्री कृष्ण रुकमणी जी के समस्त श्रद्धालु भक्तजनों ने शादी का आनंद लिया। कथावाचक ने कहा कि मनुष्य को कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए अहंकार सर्वनाश करता है लोगों को भगवान का प्रार्थना करना चाहिए भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं ।इस दौरान मुख्य यजमान कंचना सिंह,अनिल कुमार सिंह, गोपाल जी सिंह, हरि सिंह ,अरुण कुमार सिंह ,मनोज कुमार सिंह, संजीव सिंह, राजन दुबे, शिव मुकुंद सिंह,रामेंद्र सिंह , उमेश सिंह,शिवराम सिंह, , पप्पू सिंह, कुलदीप दुबे, बबलू सिंह, अखंड पाल, पप्पू सिंह, छोटे सिंह, मंगल मोदनवाल, भारत यादव, , विक्रम त्रिपाठी,रामानंद यादव, ,भारद्वाज त्रिपाठी,इंद्रप्रकाश सिंह,खन्नू सिंह, बंसी सिंह,सुनील सिंह, सोनू सिंह, आशु सिंह,विकास,कुंवर सिंह ,वैभव सिंह,, जनता गुप्ता,सोनू, अभय सिंह,अमरेश सिंह ठाकुर प्रसाद मिश्रा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

# हिन्दू संगठनों ने फूंका बांग्लादेश का पुतलाः राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती । बुधवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद जिलाध्यक्ष स्नेह पाण्डेय एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, हत्याओं को रोकने के सवाल को लेकर एपीएन पी.जी. कालेज के निकट से जन आक्रोश रैली निकाली। रैली बांग्लादेश विरोधी नारे लगाते हुये लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा के निकट पहुंची जहां बांग्लादेश का पुतला फूंका गया। इसके बाद डीएम कार्यालय पर पदाधिकारियों ने बांग्लादेश के मयमनसिंह के भालुका इलाके में ईशनिंदा के आरोप में 25 वर्षीय फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद्र दास की पीट–पीटकर हत्या मामले में मृतात्मा के आत्मा की शांति के लिये हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकरी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया।

राष्ट्रपति को भेजे 5 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले वर्ष बंगला देश की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद यहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा, उत्पीड़न और हत्याओं की लगभग 88 घटनाएं हो चुकी हैं। जिसमें हजारों लोगों को मौत के घाट उतरा जा चुका है। हिन्दू मंदिरों को तोड़ने, हिन्दू घरों को जलाने और लूटपाट एवं मारकाट की घटनाएं की जा रही है, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक दीपू चन्द दास को मार कर पेड़ पर लटका कर जला दिया, ईस्लामिक कट्टरपथीं आतंकवादी उस्मान हादी की मृत्यु के बाद ढाका में भारत विरोधी पडयंत्र किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सत्ता, सेना और सरकार गृष्ठ युद्ध जैसे हालत के सामने लाचार जान पड़ रहे हैं। इसे रोका जाय।

विभाग अध्यक्ष संजय द्विवेदी, जिला संयोजक प्रभु दयाल वर्मा ने कहा कि ग्रेटर बंगलादेश का नक्शा बना कर भारत की सीमाओं को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। सरे आम हिन्दुओं को मारने की धमकियां दी जा रही है। वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे है। यदि हिन्दुओं का उत्पीड़न, हिंसा, हत्या न रूकी तो अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय बजरगं दल पूरे देश मे वाग्लांदेश के विरोध में आदोंलन करेगा ।

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, हत्याओं को रोकने के सवाल को लेकर निकली जन आक्रोश रैली में मुख्य रूप से रमेश चन्द्र कन्नौजिया, मोहन सिंह, रविन्द्र कश्यप, वशिष्ठ मुनि, रमेश, राम कन्नौजिया, लल्लू शुक्ल, सयेन्द्र मिश्र, अनिल प्रजापति, विनोद निषाद, अंशुमान, ह्रिदेश, हरेन्द्र सिंह, कवि चौधरी, राजू चौहान, रमेश शर्मा, कोमलनन्द जी महाराज, उदय प्रताप, पप्पू सोनी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय बजरगं दल के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

# मतदाता सूची में फर्जीवाड़े पर आपत्ति करने पहुँचे पत्रकार पर प्रधान पति का जानलेवा हमला

आज का आतंक संवाददाता

बस्ती। ग्राम पंचायत तिलकपुर में मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाने की वैधानिक प्रक्रिया के दौरान एक गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है। नजरिया बस्ती का अखघ्बार के सह–संपादक एवं ग्राम पंचायत तिलकपुर के नागरिक दीपक दूबे पर ग्राम प्रधान के पति द्वारा जानलेवा हमला, गाली–गलौज और धमकी दी गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत दीपक दूबे ने ग्राम पंचायत तिलकपुर में फर्जी मतदाता बनकर मतदान कर रहे कुछ व्यक्तियों के नामों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। संबंधित आपत्ति फॉर्म उन्होंने विधिवत बी.एल.ओ. श्री परदेशी को सौंपा था।

दिनांक 24 दिसंबर 2025 को बी. एल.ओ. की सूचना पर जब वे प्राथमिक विद्यालय तिलकपुर में आपत्ति से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने पहुँचे, तभी ग्राम पंचायत तिलकपुर की प्रधान उमलेश मिश्रा के पति सचिदानंद मिश्रा पुत्र स्व. भगवती प्रसाद उर्फ मुन्नीलाल वहाँ पहुँचे और अभद्र भाषा में गाली–गलौज शुरू कर दी। जब दीपक दूबे ने इस अवैधानिक कृत्य को मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहा, तो सचिदानंद मिश्रा ने उन पर हमला कर दिया।

हमले के दौरान मोबाइल फोन छीनकर फेंक दिया गया, चश्मा तोड़ दिया गया और लगातार मारपीट की गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के हस्तक्षेप से बड़ी अनहोनी टल सकी। इसके साथ ही सचिदानंद मिश्रा ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि "मेरा भाई विवेकानंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है, जो उखाड़ पाओ उखाड़ लो, अभी तुम्हें घर से उठवा लूँगा।"

इस घटना से न सिर्फ एक पत्रकार की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव का भी गंभीर मामला सामने आता है। पीड़ित ने थाना कप्तानगंज में तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और अपने व परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

आपत्ति किए गए नाम विकास खंड कप्तानगंज के ग्राम पंचायत तिलकपुर व विकास खंड बस्ती सदर के जामडीह शुक्ल में मतदाता हैं –

# ठाकुर शिवकुमार सिंह स्मारक राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता उद्घाटन मुकाबले में पडरौना ने यूपी पुलिस गोरखपुर को हराया

आज का आतंक संवाददाता

सिसवा बाजारध्महराजगंज।

अटैक स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित ठाकुर शिवकुमार सिंह स्मारक राज्य स्तरीय आठ दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ बुधवार को महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल मैदान में हुआ। उद्घाटन मुकाबले में कंक्रीट क्लब पडरौना ने यूपी पुलिस गोरखपुर को कड़े संघर्ष के बाद टाईब्रेकर में 6द्5 से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया।

प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रयागराज जनपद में डीआईजी स्टांप के पद पर तैनात तथा सिसवा विकासखंड की ग्राम सभा गेरमा निवासी सुरेश तिवारी ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। उद्घाटन मुकाबला कंक्रीट क्लब पडरौना एवं यूपी पुलिस गोरखपुर के बीच कुल 70 मिनट तक खेला गया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। मध्यांतर के बाद भी दोनों ओर से कई बेहतरीन प्रयास किए गए, परंतु गोल का सूखा बरकरार रहा।

मैच के 45वें मिनट में यूपी पुलिस गोरखपुर के जर्सी नंबर 89 के खिलाड़ी रामनिवास को फाउल करने पर रेफरी द्वारा पीला कार्ड दिखाया गया। निर्धारित समय तक कोई गोल न होने के कारण मुकाबला टाईब्रेकर में पहुंचा, जहां पडरौना की टीम ने 6द्5 से जीत दर्ज कर ली। मैच में निर्णायक की भूमिका मऊ के मो. हामिद उर्फ लल्लन ने निभाई। सहायक निर्णायक प्रभात मिश्रा एवं रहमतुल्ला रहे, जबकि फोर्थ ऑफिशियल की जिम्मेदारी मकसूद आलम ने संभाली। इस अवसर पर राजू सिंह, अमरेंद्र मल्ल, तेज प्रताप सिंह (पूर्व प्रधान), ओ.ए. जोसेफ, विवेक चौरसिया, दीवाकर जायसवाल, एडवोकेट उमाशंकर जायसवाल सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।

## प्रधान की आकस्मिक निधन से शोक

आज का आतंक संवाददाता

परसरामपुर बस्ती। थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किशुनपुर के ग्राम प्रधान राजबहादुर पाण्डेय की मंगलवार शाम को आकस्मिक मौत हो गयी। मौत की खबर पर समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। निधन की खबर फैलते ही शुभचिंतक अचंभित एवं गमगीन हो गया। पूरी रात और दिन सोशल मीडिया पर शोक संवेदनाओं का तांता लगा रहा। बुधवार को पार्थिव शरीर को रामघाट अयोध्या सरयू नदी के तट पर दाह संस्कार किया गया।

बता दें कि राजबहादुर पाण्डेय ग्राम प्रधान के साथ मिलनसार, व्यक्तित्व के धनी और एक समाजसेवी व्यक्ति थे। इनके प्रधानी कार्यकाल में ग्राम पंचायत किशुनपुर का चहुंमुखी विकास कार्य हुआ है।

अन्त्येष्टि संस्कार के दौरान प्रधान, ब्लाक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बहुत बड़ी संख्या में शुभचिंतक मौजूद रहे ।वर सिंह ,वैभव सिंह,, जनता गुप्ता,सोनू, अभय सिंह,अमरेश सिंह ठाकुर प्रसाद मिश्रा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

हिन्दी दैनिक आज का आतंक

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक,मुद्रक दिलीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा ,साकृत्यांयन आफसेट प्रिंटिंग प्रेस, दक्षिण दरवाजा स्टेशन रोड पुरानी बस्ती, जिला –बस्ती, उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित,

सम्पादक
दिलीप चन्द्र पाण्डेय
मो0–9580354571

eEmail
aajkaaatank@gmail.com

सुरेंद्र नाथ द्विवेदी
स्थानीय संपादक

अरूण देव सिंह
ब्यूरो प्रभारी– संतकबीर नगर
मो.नं.– 8299737761

सम्पर्क कार्यालय– डा0 राममनोहर लोहिया काम्पलेक्स दुकान नं0ए 1व 4 न्याय मार्ग कचहरी बस्ती